



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 31 मार्च, 2021

चैत्र 10, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 365/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(175)-2021

लखनऊ, 31 मार्च, 2021

अधिसूचना

प०आ०-101

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 428/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(106)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रभावी, शब्द "एक सौ करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास करोड़ रुपये" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 365/XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(175)-2021, dated March 31, 2021 :

No. 365/XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(175)-2021

Dated Lucknow, March 31, 2021

IN exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification No. 428/XI-2-9(47)/ 17- U.P. Act-1-2017-Order- (106)-2020 Dated April 30th, 2020, namely:-

2. In the said notification, in the first paragraph, with effect from the 1st day of April, 2021, for the words "One hundred crore rupees" the words "fifty crore rupees" shall be *substituted*.

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.